



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 124]
No. 124]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 3, 1980/वैशाख 13, 1902
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 3, 1980/VAISAKHA 13, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 1980

सा. का. नि. 246(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 51) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इसके द्वारा, पासपोर्ट नियमावली, 1967 में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :—

1. (1) ये नियम पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 1980 कहलायेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पासपोर्ट नियमावली, 1967 की अनुसूची 3 के फार्म ईए (पी)-1 में खंड "ज" के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, यथा :—

“1. क्या आपने पासपोर्ट/यात्रा प्रलेख के लिए पहले कभी आवेदन किया है ?

2. यदि पासपोर्ट/यात्रा प्रलेख जारी किया गया था तो निम्नलिखित विवरण दें और पासपोर्ट/यात्रा प्रलेख संलग्न करें :—

जारी किए जाने की तारीख :

जारी किए जाने का स्थान :

3. यदि पासपोर्ट/यात्रा प्रलेख संलग्न नहीं किया गया है तो बताइये कि इसका क्या हुआ।

4. यदि

(1) आपको पासपोर्ट/यात्रा प्रलेख देने से पहले इन्कार किया गया है और अस्वीकृति के आदेश बाद में बिना किसी शर्त के वापस नहीं लिया गया/रद्द किया गया ; अथवा

(2) आपका पासपोर्ट/यात्रा प्रलेख जप्त किया गया था और बाद में बिना शर्त वापस नहीं किया गया तो कृपया अधिक द्वारा प्राप्त किए गए सरकारी पत्र की एक प्रती संलग्न करें।

5. यदि आपका नाम आपके परिभाषकों के पासपोर्ट में शामिल था तो नाम गलतने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें अथवा पासपोर्ट/यात्रा प्रलेख नाम गलतने के लिए प्रस्तुत करें।”

[सं. VI/401/18/80]

संख्या :

कै. डी. शर्मा, संचालक सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May 1980

G.S.R. 246(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1967, namely :—

1. (1) These rules may be called Passports (Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule III to the Passports Rules, 1967, in Form FA(1)-I, for the relating entries under section H, the following entries shall be substituted, namely :—

"1. Have you ever applied for a passport/travel document before ?

2. If passport/travel document was issued, please indicate the following details and attach the passport/travel documents :—

Number :

Date of issue :

Place of issue :

3. If passport/travel document is not attached, indicate what happened to it.

4. Please enclose a copy of the official communication received by you in case :

(i) a passport/travel document was first refused to you and the order of refusal was not unconditionally withdrawn/cancelled subsequently ; or

(ii) your passport/travel document was first impounded and was not unconditionally restored to you subsequently.

5. If your name was included in either parent's passport, a certificate about deletion may be produced or passport/travel document produced for deletion".

[No. VI/401/18/80]

K. D. SHARMA, Jt. Secy.